



फ्रांस की राजधानी पेरिस

पेरिस फ्रांस की राजधानी और देश का सबसे बड़ा शहर है। यह फ्रांस के उत्तर में स्थित है। पेरिस एक बहुत पुराना शहर है। कहते हैं कि यह रोमन ज़माने से भी पहले बना। आज इसकी आबादी (जनसंख्या) करीब बीस लाख है। सैन नाम की नदी यहां से होकर बहती है। पेरिस में कई मशहूर और देखने लायक जगहें हैं। आइफ़ल टावर दुनिया भर में जानी-मानी इमारत है। इसका निर्माण उन्नीसवीं सदी में हुआ। लूव्र संग्रहालय में लोग देश-विदेश के प्रसिद्ध चित्र, मूर्तियां और दुर्लभ चीज़ें देख सकते हैं। शहर के बीचोंबीच, सैन नदी के एक द्वीप पर नात्र दाम गिरजाघर है। इसके सामने हमेशा पर्यटकों की भीड़ रहती है। पेरिस से कुछ ही दूर वैरसाय का महल है जहां पुराने ज़माने में फ्रांसीसी राजा महाराजा रहते थे। पास ही बने यूरो डिस्नीलैन्ड में जाना बच्चे-बूढ़े दोनों पसन्द करते हैं।

पेरिस शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण केन्द्र है। यहां फ्रांस के बड़े-बड़े विश्वविद्यालय मौजूद हैं। इनमें जाकर देश भर के छात्र अलग अलग विषय पढ़ सकते हैं। शहर के कार्टिए लातां इलाके में कई दुकानें हैं जहां सभी तरह की किताबें मिलती हैं। शोध करने के लिए लोग पुस्तकालयों में भी जा सकते हैं।

काम के साथ साथ यहां मनोरंजन के साधनों की भी कमी नहीं है। सिनेमा, थिएटर और ओपेरा जाकर शहर के निवासी और सैलानी दोनों अपना मन बहला सकते हैं।

पेरिस को फ़ैशन की राजधानी भी कहते हैं। यहां बहुत से जाने-माने फ़ैशन डिज़ाइनर काम करते हैं। उनके कपड़े सिर्फ़ शहर की बड़ी बड़ी दुकानों में ही बिकते हैं, और अकसर काफ़ी महंगे होते हैं।

पेरिस में हमेशा से ही दुनिया के सभी देशों के लोग आकर बसे हैं। दूसरे यूरोपीय देशों के और एशियाई और अफ़्रीकी मूल के लोग यहां बड़ी संख्या में मौजूद हैं। चाहे मेट्रो हो या बस, दुकान हो या रेस्टोरेन्ट, हम यहां पूरी दुनिया की भाषाएं सुन सकते हैं।

